

सृजन

भाग 2

कक्षा 12 के लिए सृजनात्मक लेखन
और अनुवाद की पाठ्यपुस्तक

Srijan

Part 2

Textbook in Creative Writing
and Translation for Class 12



12132

शिक्षण ५ प्रवर्धनम्



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

2022-23

12132 – सृजन (भाग 2)

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5007-301-8

प्रथम संस्करण

अक्टूबर 2015 कार्तिक 1937

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2019 पौष 1940

नवंबर 2021 कार्तिक 1943

PD 5T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2015

₹ 265.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।
प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016
द्वारा प्रकाशित तथा दीवान प्रिंट हाउस नं.-26, सैक्टर-2,
डी.एस.आई.आई.डी.सी. बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
110 039 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरा III स्टेज

बैंगलूर 560 085

फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी

कोलकाता 700 114

फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगाँव

गुवाहाटी 781 021

फ़ोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग/Publication Team

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: अनूप कुमार राजपूत
Head, Publication Deptt	: Anup Kumar Rajput
मुख्य संपादक	: श्वेता उप्पल
Chief Editor	: Shveta Uppal
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
Chief Production Officer	: Arun Chitkara
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: विपिन दिवान
Chief Business Manager	: Vipin Dewan
संपादक	: रेखा अग्रवाल/Rekha Agarwal
Editor	: विज्ञान सुतार/Bijnan Sutar
उत्पादन सहायक	: प्रकाश वीर सिंह
Production Assistant	: Prakash Veer Singh

आवरण एवं चित्रांकन

आर्ट क्रिएशनस

Cover and Illustration

Art Creations

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का सफल प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यह भी सुझाती है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ। इसे ध्यान में रखते हुए परिषद् ने कुछ ऐसे नए विषय क्षेत्रों से विद्यार्थियों का परिचय कराने का निश्चय किया, जो सृजनात्मक दृष्टिकोण और अंतरविषयी समझ विकसित करने में विशेष रूप से सहायक हों। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इस तरह की समझ और कौशल विकसित करने में सृजनात्मक लेखन और अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बहुभाषी सामग्री से भरपूर यह पुस्तक युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए एक अनूठा अवसर दे सकती है। एन.सी.ई.आर.टी. यह उम्मीद करती है कि इस पुस्तक का यह नवाचारमूलक दृष्टिकोण अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे भाषा और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी को रोज़मर्रा के सामाजिक अनुभवों और उनसे जुड़े विमर्शों के साथ समन्वित कर सकें।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एक मात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फ़ेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरीयत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का

पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार श्री अशोक वाजपेयी, सलाहकार प्रोफेसर अरुण कमल तथा निगरानी समिति द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य सुश्री राजी सेठ की आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
अक्तूबर, 2010

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF) 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify and attempt to implement this idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centered system of education outlined in the *National Policy on Education* (1986).

One of the key recommendations of the NCF is to increase the number of options available at the higher secondary level. Following this recommendation the National Council of Educational Research and Training (NCERT) has decided to introduce new areas highlighted in the NCF for their potential for increasing creativity and interdisciplinary understanding. Creative Writing and Translation constitute a major example of the space available for interdisciplinary understanding and skill development in the higher secondary classes. The present textbook attempts to provide a unique opportunity to the young pursuing this area in a bilingual text. NCERT hopes that the innovative approach of this textbook will inspire both teachers and students to combine the knowledge of language and literature with everyday social experiences and the discourses associated with them.

This initiative can succeed only if school principals, parents and teachers recognise that given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbooks as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days is actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making

children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

NCERT appreciates the hard work done by the syllabus and textbook development committee. The work for developing this interactive textbook was challenging and the painstaking efforts by its Chief Advisor, Sri Ashok Vajpayi and Advisor, Professor Arun Kamal are praiseworthy. The Council is grateful to Ms Rajee Seth, the special invitee of the Monitoring Committee. We are indebted to the institutions and organisations, which have generously permitted us to draw upon their resources, materials and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development, under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic and continuous empowerment in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

New Delhi
October, 2010

Director
National Council of Educational
Research and Training

यह पुस्तक

बच्चे सहज ही सृजनात्मक होते हैं। उनकी यह सृजनात्मकता तरह-तरह से अभिव्यक्त होती है। भाषा रचने की तो उनमें स्वाभाविक क्षमता होती है। अगर उनकी इस क्षमता की पहचान शुरुआत में ही हो जाए तो इसे और निखारा जा सकता है। खासतौर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक आते-आते अभिव्यक्ति के नए माध्यमों की बारीकियों से परिचय हो तो विद्यार्थियों की रचनात्मकता नए आयाम लेगी। साथ ही वे भाषा साहित्य को रोजमर्रा के सामाजिक मुद्दों और विमर्शों से जोड़कर देखने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसे में इस पुस्तक का साथ उनमें अच्छा लिख सकने का विश्वास भर सकता है।

इस पुस्तक का निर्माण एक बहुभाषी बच्चे की परिकल्पना के साथ हुआ है। इसमें **चार इकाइयाँ** हैं। प्रत्येक इकाई में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में समानांतर सामग्री दी गई है, वह भी एक ही ज़िल्द में। एन.सी.ई.आर.टी. ने पहली बार ऐसी पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया है। दोनों ही भाषाओं में स्वतंत्र रूप से अध्यायों को लिखा गया है। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वे दोनों भाषाओं में लिखी सामग्री को पढ़ें ताकि उनकी अभिव्यक्ति दोनों भाषाओं में आसानी से आवाजाही कर सके। अनुवाद कौशल में भी यह सहायक रहेगा। इसके माध्यम से कम-से-कम दो भाषाओं की सृजनात्मक विशेषताओं से विद्यार्थी एकसाथ रू-ब-रू होंगे। इसमें दी गई गतिविधियाँ भी दोनों भाषाओं की सामग्री को जोड़ती हैं, जो बहुभाषी संदर्भ रचने में समर्थ हो सकती है। अनुवाद इसका एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अनुवाद में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति सचेत हो सकेंगे।

सृजनात्मकता हममें ऊर्जा भरती है। यही हमें विभेदों का आदर करना सिखाती है विभिन्नता और अनेकता में रस लेना भी। हरेक व्यक्ति सृजनात्मक होता है, बच्चे तो बड़ों से भी ज्यादा। सींची जाने पर सृजनात्मकता अंकुरण बन प्रत्येक विद्यार्थी के स्वतंत्र विकास का ज़रिया हो सकती है। बढ़िया ढंग से लिखे गए शब्द दुनिया को नए ढंग से रचने की ऊर्जा देते हैं। ज़ाहिर है रचने की इस ऊर्जा को शुरुआत में ही दिशा मिल जाए तो आने वाले कल का इतिहास बिलकुल नया और ताज़ा होगा क्योंकि लिखित शब्द दस्तावेज़ की तरह होते हैं। इनका प्रभाव भी बिलकुल भिन्न होता है।

यह पुस्तक सृजनात्मकता संबंधी बनी-बनाई धारणा में बदलाव की माँग करती है। रचने की कला किसी जन्मजात प्रतिभा की मोहताज़ नहीं होती, वह कहीं भी और कभी भी पनप सकती है। क्योंकि सबके भीतर वह बीज मौजूद है। यह पुस्तक उन्हें पहचानने का एक अवसर दे सकती है।

आज अलग-अलग क्षेत्रों, रूप विधा के साथ-साथ अलग-अलग अनुशासनों में ऐसा लेखन हो रहा है, जिसकी नयी भाषा और उसका नया व्याकरण सृजनात्मकता की नयी संभावनाओं की ओर

ले जाता है। साहित्य के साथ-साथ अनुवाद और मीडिया का भी क्षेत्र ऐसा ही है। पूरी दुनिया से जुड़ने में ऐसे लेखन की बड़ी भूमिका है। जाहिर है अगर ऐसे सृजनात्मक लेखन से युवाओं/युवतियों की ऊर्जा भी जुड़ती है, तो पूरी दुनिया को रचनात्मक ढंग से जुड़ने में मदद मिलेगी।

अनुवाद तो सृजनात्मकता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दो से अधिक भाषाएँ साधे बिना भारत में जल्दी किसी का काम नहीं चलता। हमारे संदर्भ की बहुभाषिकता रोज़मर्रा की जिन्दगी से ताल्लुक रखती है। एक दिन के लिए भी सिर्फ़ एक भाषा में बँधकर रह जाना हमारे लिए संभव नहीं। फिर भी अकसर हम बंद ख़ाँचों में बँधकर भाषा पढ़ते-पढ़ाते हैं। बोल-चाल में भले ही हम एक भाषा की पंक्ति से शुरू कर दूसरी भाषा की पंक्ति पर खत्म करें-कक्षा में हमारा जोर एकभाषिकता पर रहता है और शुद्धतावादी दृष्टिकोण इस कदर हम पर हावी रहता है कि भाषिक हेल-मेल से हम भरसक परहेज़ ही कर जाते हैं। हर भाषा के अलग-अलग अवयव जानना-समझना ज़रूरी है पर उतना ही ज़रूरी है भाषाओं का गठबंधन/तुलनात्मक अध्ययन। हमारे रोज़मर्रा के अनुभव का हिस्सा है अनुवाद, जिसमें अनुवादक की कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता एक बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अनुवाद मौलिक रूप में सृजनात्मक होता है। हमारे बहुलतावादी समाज में एकभाषिकता की कृत्रिमता पर एक प्रश्नचिह्न लगाता है यह पाठ्यक्रम, साथ ही भाषिक कौशल के विकास की सम्यक्-व्यापक योजना रखता है।

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के मूल्यांकन में समग्र दृष्टिकोण की माँग करता है। यहाँ मूल्यांकन की भूमिका विद्यार्थी की सृजनात्मकता और उनकी सृजनात्मक लेखन संबंधी जानकारी को आकार देकर पैना बनाना है। उनकी रुचि और भावनाओं को रचनात्मक दिशा तलाशने में मदद करना है। इस प्रक्रिया में अध्यापकों को हरेक विद्यार्थी के लिए मूल्यांकन संबंधी अलग-अलग विधियों और औज़ारों को अपनाना होगा। विद्यार्थी की समझ और विकास को जाँचने के लिए उनकी समस्याओं, उनके आत्मविश्वास, उनकी क्षमता को नज़दीक से पहचानना होगा।

मूल्यांकन की इस प्रक्रिया में अंकों या 'ग्रेड' द्वारा जाँचने के बजाय संरचनात्मक सुझाव देकर विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को असरदार बनाना होगा। यह प्रक्रिया उनके सृजनात्मक विकास में सहायक होगी। इसलिए लिखित परीक्षा मात्र मूल्यांकन में सहायक नहीं हो सकती, लिखित परीक्षा के साथ-साथ विभिन्न तरीकों से विद्यार्थी का निरीक्षण, जैसे-पोर्टफ़ोलियो में किए गए कार्य, बातचीत, सामूहिक कार्य में साझेदारी, विद्यार्थी के स्वयं के मूल्यांकन को वरीयता देनी होगी। विद्यार्थी की मौलिकता को बनाए रखना मूल्यांकन का सबसे ज़रूरी पक्ष होगा। इसके लिए पुस्तक में दी गई गतिविधियों को तो कराएँ ही, कक्षा की माँग के अनुसार कुछ नयी गतिविधियों की जगह हमेशा बनाएँ।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रचनात्मक प्रक्रिया किसी रचना से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ रच सकने के अहसास तक पहुँचना या उसे जानना विद्यार्थियों की सृजनात्मक मौलिकता (खासतौर से भाषा में सृजनात्मकता) की पहचान कर उसे सही दिशा देने में सहायक होगा, जो इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

अध्यापकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह हरेक विद्यार्थी से एक तरह की सृजनात्मक क्षमता की अपेक्षा न करे। हर विद्यार्थी की भिन्न मौलिक क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर ही उन्हें दिशा देना अध्यापकों का दायित्व होना चाहिए। उनकी भूमिका मित्रवत् होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षा के बीच एक संवादात्मक रिश्ता बन सके। विद्यार्थी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति की आज़ादी विद्यार्थी के तनाव को कम कर उनके आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ाएगी। यह प्रक्रिया उन्हें अभिव्यक्ति की ऐसी भाषा देने में समर्थ होगी, जिससे भाषाओं, कलाओं, संस्कृतियों के बीच का रास्ता बेरोक-टोक, शांतिपूर्ण और मज़बूत हो सकेगा।

गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

नि. य. वि. वि.

About This Book

Children have an innate creative ability which manifests itself in many forms. Their natural flair for creativity in language, if identified early, can lead to further creative growth and enhancement of their skills. Exposure to the nuances of contemporary and diverse forms of creative expression at the Higher Secondary level can facilitate discovery of new dimensions of creative expression in language and literature. The endeavour of this book is therefore to enable students to recognise their talents and write confidently.

Srijan has been developed keeping in view a bilingual child and it is for the first time that NCERT has developed a bilingual book (Hindi and English). There are four units in the book. Each unit has been developed in Hindi as well as in English. These are parallel texts and not just literal translations. Students are expected to read both sets of units as this would hone their linguistic abilities and besides developing their translation skills will give them a better understanding of the subject. The units in Hindi and English are linked with activities that are numbered in continuation so that students visit both texts and come across enriching examples in both languages. Translation, which is an inherent part of this course, creates a bilingual context. Translations are expected to enable the learners to appreciate the fact that translation is also a creative activity.

The book aims to change pre-conceived notions related to creative skills, the foremost among which is that creativity is inborn and hence only some of us are endowed with it. This book reiterates the fact that each one of us can be creative; children are more so. With adequate guidance and training every student's creative potential can be tapped and developed. Creativity teaches us to respect diversity and to derive pleasure in variety. What is required is to give effective direction to the inherent creative energy in students so that a better tomorrow can be scripted. As we all know, a well-written piece has the strength to change/formulate opinions.

Today, Creative writing has been revitalised with a spirit of innovation and experimentation. New forms of writing, with their unique expressions and grammar have emerged in the field of literary writing, translation and media. With the creative use of both language and literature, students will be able to represent and reflect upon contemporary social realities, diverse thoughts, languages and cultures.

The study of two or more languages is essential in India. No person can confine herself or himself to a single language. In schools, however, we study

languages as watertight compartments. While conversing we may begin the sentence in one language and end it in another, but in the classroom we emphasise exclusivity and purity. This book attempts to bridge the gap between experienced reality and pedagogical practice by recognising that although it is important to know the individual features of every language, it is also essential in our multilingual context to look at them comparatively. This can be achieved by introducing students to translation as a creative activity.

The course on Creative Writing and Translation demands that the assessment of the students should be holistic. The role of assessment is to enhance the knowledge and skills of creative writing among students, and to provide direction to their field of interest. On the basis of this, the teacher can evolve an individualised approach or strategy appropriate for her/his students. The teacher will also have to identify the problems, ascertain the level of confidence, and capabilities of the students.

The students' assessment should not be made merely in terms of marks or grades; rather, constructive feedback from the teacher would be more effective. Therefore, written texts alone are not sufficient as a means of assessment. They should be combined with the teacher's observations and assessment of the student's work throughout the year by maintaining individual portfolios, oral presentations, group-work, students' self-assessment etc. The learner's individual expression should be given due space in the process of assessment.

There are a variety of activities in the book. However, new activities should be created according to the interests and needs/demands of the students. We must remember that the creative process is as important as the product, and the learner needs to be encouraged to enjoy the process, which is the primary objective of this course.

The inherent challenge before the teachers lies in the fact that all the students do not have the same level of creativity and understanding. Teachers are required to guide the students according to the individual's interest and creativity level. The teacher's role in a learner-centered environment is that of a facilitator and friend. This will encourage constant dialogue between the teacher and the student. A positive attitude and freedom of expression will go a long way in lowering the anxiety levels of learners, while raising their self-confidence and self-discipline. This course is expected to provide students with a medium to creatively interact with diverse cultures and languages thereby contributing towards creating harmony and peace.

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

Textbook Development Committee

मुख्य सलाहकार/CHIEF ADVISOR

अशोक वाजपेयी, अध्यक्ष, नयी दिल्ली ललित कला अकादमी
Ashok Vajpayi, Chairperson, Lalit Kala Academy, New Delhi

सलाहकार/ADVISOR

अरूण कमल, प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय, पटना
Arun Kamal, Professor, Patna University, Patna

सदस्य/MEMBERS

अनामिका, एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली
Anamika, Associate Professor, Satyawati College, Delhi

अनुराधा, पी.जी.टी., सरदार पटेल विद्यालय, लोधी इस्टेट, नयी दिल्ली
Anuradha, P.G.T., Sardar Patel School, Lodhi Estate, New Delhi

अनुभा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, कमला नेहरू कॉलेज, नयी दिल्ली
Anubha Yadav, Assistant Professor, Kamla Nehru College, New Delhi

आनंद प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, आई.आई.एम.सी., दिल्ली
Anand Pradhan, Associate Professor, Indian Institute of Mass
Communication, Delhi

इंदुबाला, पूर्व प्रधानाचार्य, डी.टी.ई.ए. स्कूल, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली
Indu Bala, Former Principal, DTEA School, R.K. Puram, New Delhi

जी.जे.वी. प्रसाद, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली
G.J.V. Prasad, Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

नीलम सरण गौड, प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Neelum Saran Gaur, Professor, Allahabad University, Allahabad

नीलकंठ कुमार, पीजीटी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, द्वारका, नयी दिल्ली
Neelkanth Kumar PGT, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Dwarka,
New Delhi.

प्रमोद तिवारी, *असिस्टेंट प्रोफेसर*, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, गांधी नगर
Pramod Tiwari, *Assistant Professor*, Central University Gujarat,
Gandhi Nagar.

महेश दर्पण, *कहानीकार और पत्रकार*, सादतपुर, नयी दिल्ली
Mahesh Darpan, *Storywriter and Journalist*, Sadatpur, New Delhi

राज्यश्री नारायण, *पीजीटी*, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, लोधी रोड, नयी दिल्ली
Rajyasri Narayan, *PGT*, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Lodhi Road,
New Delhi.

शारदा, *वरिष्ठ प्रवक्ता*, डाइट, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली
Sharda, *Sr. Lecturer*, DIET, R.K. Puram, New Delhi

सुरेश सलिल, *कवि और अनुवादक*, सादतपुर, नयी दिल्ली
Suresh Salil, *Poet and Translator*, Sadatpur, New Delhi

सुकृता पॉल कुमार, *एसोसिएट प्रोफेसर*, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
Sukrita Paul Kumar, *Associate Professor*, University of Delhi, Delhi

सूसन थॉमस, *असिस्टेंट प्रोफेसर*, कमला नेहरू कॉलेज, नयी दिल्ली
Susan Thomas, *Assistant Professor*, Kamla Nehru College, New Delhi

सदस्य समन्वयक/**MEMBER COORDINATORS**

संध्या सिंह, *प्रोफेसर*, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
Sandhya Singh, *Professor*, Department of Education in Languages,
NCERT, New Delhi

कीर्ति कपूर, *एसोसिएट प्रोफेसर*, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
Kirti Kapur, *Associate Professor*, Department of Education in Languages,
NCERT, New Delhi

आभार

पुस्तक निर्माण के अलग-अलग चरणों में सहयोगी रामजन्म शर्मा, प्रोफेसर और पूर्व अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली, रणजीत साहा, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी दिल्ली, सुश्री सनम खन्ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, कमला नेहरू कॉलेज, नयी दिल्ली और स्व. डॉ. नूतन झा, मीरांबिका स्कूल, नयी दिल्ली के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

फोटोग्राफ के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्ली, सरदार पटेल विद्यालय, नयी दिल्ली, पर्यावरण एवं वन विभाग और रेल मंत्रालय के हम आभारी हैं।

परिषद् इसके निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए डी.टी.पी. ऑपरेटर रुचि सैनी और नरेन्द्र कुमार वर्मा की आभारी है।

Acknowledgement

We acknowledge the contribution of Ram Janam Sharma, *Professor and Former Head*, DEL, NCERT, New Delhi; Ranjit Saha, *Professor*, JNU, New Delhi; Ms Sanam Khanna, *Assistant Professor*, Kamala Nehru College, New Delhi; and Dr Late Nutan Jha, *Mirambika School*, New Delhi at various stages of the development of this book.

NCERT would like to thank the National School of Drama, New Delhi, Environment and Forests Ministry and Railway Ministry for permission to reproduce copyright pictures in this book.

The Council also acknowledges the services of Ruchi Saini and Narender Kumar Verma, *DTP Operators*.

Gandhiji's Talisman

I will give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test:

Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?

Then you will find your doubts and your self melting away.

M.K. Gandhi

विषय सूची/CONTENTS

आमुख ... iii

Foreword ... v

यह पुस्तक ... vii

About This Book ... xi

1. साहित्यिक लेखन/Literary Writing ... 1-74

- I. भाव, विचार और उसकी रचावट ... 4
- II. कविता लेखन ... 5
- III. कहानी लेखन ... 19
 - I. An Idea and Its Development ... 38
 - II. Writing Poetry ... 39
 - III. Writing a Short Story ... 56

2. मीडिया लेखन/Media Writing ...75-124

- I. फ़ीचर लिखना ... 78
- II. लेख लिखना ... 91
- III. स्क्रिप्ट (रेडियो, टेलीविज़न) ... 93
- IV. नए माध्यमों के लिए लिखना ... 97
 - I. Feature Writing ... 100
 - II. Article Writing ... 111
 - III. Script (Radio, Television) ... 112
 - IV. Writing for the New Media ... 122

3. अनुवाद की प्रक्रिया/The Process of Translation ... 125-164

- I. संक्षिप्त परिचय ... 128
- II. विश्लेषण ... 129
- III. भाषांतरण ... 132
- IV. पुनर्रचना ... 133
 - I. An Introduction ... 142
 - II. Analysis ... 146
 - III. Transference ... 147
 - IV. Restructuring ... 148

4. संपादन/Editing ... 165-188

- I. संपादन को जानना ... 168
- II. प्रूफ़ रीडिंग और संपादन ... 172
 - I. Understanding Editing ... 176
 - II. Proof Reading and Editing ... 178

विचार के द्वार के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत है, पर अंकों से देखने का यह चरला नीका था। वो मॉडर्न पहलू को बात है। मुजफ्फरपुर गया था एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने। लेकिन ज्यादातर साल से 'पंचायतीरम अपडेट' का संपादन करते आने के कारण मेरे मन में यह बात एकदम भीतर तक बैठ गई थी कि भारत का गठराज है यहाँ के करीब छह लाख गांव। जब तक इन गांवों के चक्कर पर चमक नहीं उठती, भारत एक सच्चा हुआ देश बना रहेगा। इसलिए मैंने स्थानीय मिडिया से निवेदन किया कि वे मुझे आसपास के कुछ गांवों में ले चलें जहाँ मैं बिहार की और उसके साक्ष्य से हिंदुस्तान की सच्ची रासखीर देखा सकूँ।

महाराज गाँधी का यह वाक्य मैंने बार-बार पढ़ा है कि अखिली भारत गाँवों में रहता है। सुमिथानन्द पंड को तबिवा 'भारत: गाँव प्रामाण्यमिनी' जेरी पंचायत कालिकाओं में एक है। इसी कविता के दो शब्द उठकर फुलीश्वरनाथ रेणु ने अपने अमर उपन्यास 'मैला आंचल' को रचता था। इस उपन्यास का नामक मनीरिया के करणों की खोज में पुर्णित के एक गाँव में रिसर्च करने जाता है और अखिर में इस नदीने पर पहुँचता है कि मनीरिया के कोटापु गाँवियों और पोखरी में नहीं पाए जाते, बल्कि अरिशा और अज्ञान में धार जाते हैं। मैं देखना चाहता था कि 'मैला आंचल' के इस नामक की खोज कब कितनी सार्थक है। शिक्षा-अशिक्षा, साक्षरता-निरक्षरता के अंकनों से कुछ खास गता नहीं चलता। अंकों देता सत्य सब पर भारी पड़ता है।

पहले दिन हम सिर्फ़ दो गाँव घूम सके। दोनों स्थानों पर विकास और अविचार के सम्मिलित नकार दिखे। वहीं पता चला कि पहला गाँव विषाद में अगले दिन सुबह दस बजे ग्राम पंचायत की बैठक होने जाती है। मैंने सोचा कि उसकी कार्यवाही देखो बिना छोटका बेकार है। ग्राम पंचायत पिछले कुछ सालों से भारतीय गणराज्य के लक्ष्यों को छोड़-छोड़ चुकी थी तब उबर रही है। अगर इन्हें अपनी पूरी संपादनियों के साथ उठने दिया गया तो संसद

यह बात सारा... भारत का अंशमूलक हो सकता। जन-सहयोग भी जरूरी है। इस तककीकत और जिम्मेदार... संस्था है और वे अपने-अपने गाँव या इलाके में शिक्षा का उजाला फैलाने में लगेंगे हैं।

बाद दायिलों को लाइन लग गई। संपर्क का संकल्प रंग लाया।

ओ... शिक्षा की शिल्पा गोंगांग की समस्य अलग थी। उसके गाँव में झुझता तो था, पर उनका होना न होना बराबर था। जगजगट टीकर हथवे में नक्षरद रहते थे। शिल्पा बूढ़, पढ़ी-लिखी नहीं थी। उस अपने सौदा कवाचाली समुदाय की भाषा जानती थीं। फिर भी वह शिक्षा के महत्त्व को समझती थी। संपर्क के तौर पर उसने शिक्षकों पर दबाव बनाता शुरू किया कि वे निर्बन्ध रूप से पढ़ाने आएँ। वे बहुत पुनःपुनः, कुछ ने झगड़ भी किया। जब शिल्पा ने, गाँव का संपर्क होने के नाते, उनका विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी थी, तो वे एक-एक कर जवान में आ लगे। स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई निर्बन्ध रूप से होने लगी, तो शिक्षकों भी बह गए। धीरे-धीरे निर्बन्ध काफ़ी सुधर गई। शिल्पा ने पहला न को छोटी, तो अभी भी वहाँ शिक्षा के नाम पर थीं मुसुली या राज होना।

लुधियाना की एक संपर्क ने तो फगलाल कर डाला। उसका नाम है चंद्रदीप कोर। वह काफी पढ़ी-लिखी है। अंग्रेजी में एमए करने से पहले वह बीएससी और बीए कर चुकी थी। उसकी शादी कोकरा गाँव में हुई थी। उसके पति गाँव के संपर्क थे। जब वह सोट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, तो चंद्रदीप ने इस पर के लिए चुनाव दड़ा। संपर्क चुने जाने के बाद उसके गाँव की 'गुरु समस्यओं पर स्थान देना शुरू किया। एक छोटी समस्य यह थी कि गाँव के लीगिपर डेकेडरी स्कूल में विद्या का कोई शिक्षक नहीं था। कच्ची कबाओं को छल-छावर पंथान थीं। अपने बाल पर वे थोड़ा-कुदत पढ़ लेती थी, पर वह उम्माण प्राप्त करने के लिए नितावा अपर्णात था। चंद्रदीप कोर ने सार्वा टीकर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को डावोद-नपय दिया, उन्हें रिमांडर देने, पर सार्वा टीकर गुरु का फल बना रहा। बोर्ड की परीक्षा के दिन नक्षदीक आ गए थे। शिक्षा में इतना था। तब पूरा युवा संपर्क ने बुरा मैदान में उतारने का

हमारे सामने विभिन्नताओं को खत्म करने की चुनौती नहीं है बल्कि उनके साथ रहते हुए एक रहने की है।

– रवींद्रनाथ टैगोर



The Problem is not how to wipe out the differences but how to unite with the differences intact.

– **Rabindranath Tagore**